

## यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013

### प्रलिस के लयः

अनुच्छेद 19, सूचना का अधिकार, ओपन कोर्ट

### मेन्स के लयः

यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के खलाफ महिलाओं का संरक्षण और इसकी आलोचना ।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) में एक याचिका दायर की गई है जसमें बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा **यौन उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण (POSH) अधिनियम, 2013** के तहत मामलों में जारी दशा-नरिदेशों को चुनौती दी गई है ।

- जस प्रावधान को चुनौती दी गई, वह मीडिया के साथ आदेश और नरिणय सहति रकिॉर्ड साझा करने से पार्टियों और अधविकताओं पर 'ब्लैकट बार' से संबंघति है ।
- POSH अधिनियम के तहत एक मामले में पक्षों की पहचान की रक्षा के लयि बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीएस पटेल द्वारा ये दशा-नरिदेश दयि गए थे ।

### प्रमुख बडि

- **याचिकाकर्त्ता की दलीलें:**
  - **अनुच्छेद 19 की भावना के खलाफ:** याचिकाकर्त्ता ने तर्क दयि कि 'ब्लैकट बार' [अनुच्छेद-19](#) के तहत नहिति भाषण और अभवियकर्त्ता की स्वतंत्रता के खलाफ है ।
    - याचिका में कहा गया है कि एक जागरूक नागरिक स्वयं को बेहतर तरीके से नरियंत्रति करता है ।
    - अभवियकर्त्ता की स्वतंत्रता पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब यह न्यायकि प्रशासन में हस्तक्षेप करे ।
    - लोगों के सही और सटीक तथ्यों को जानने के अधिकार पर कोई भी नषिधाज्जा उनके सूचना के अधिकार का अतकिरण है ।
  - **महिलाओं की आवाज़ का दमन:** यह पुरुषों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी रखने और उसके बाद सोशल मीडिया व समाचार मीडिया में उनकी आवाज़ को दबाने के लयि एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है ।
    - **सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण** के मामलों में सार्वजनिक वमिर्श महिलाओं को दयि जाने वाले कानूनी अधिकारों की प्रकृति को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नषिता है ।
    - आदेश का "**रपिल इफेक्ट**" हो सकता है और बचे लोगों को अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने के साथ-साथ मुकदमे के मामलों के लयि एक मसाल कायम करने से रोक सकता है ।
  - **ओपन कोर्ट के सदिधांत के खलाफ:** ओपन कोर्ट के सदिधांतों और लोगों के [मौलिक अधिकारों](#) के घोर उल्लंघन के साथ यौन अपराधयिों के अनुचति संरक्षण को वैध बनाना ।
    - **ओपन कोर्ट** एक शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करता है ।
    - न्यायालय नागरिकों के लयि यह जानने का एक मंच बन जाता है कि कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर कैसे प्रभाव डालता है ।

### यौन उत्पीड़न के खलाफ महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

- **भूमिका:** सर्वोच्च न्यायालय ने [वशिखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997](#) मामले के एक ऐतहासिक फंसले में 'वशिखा दशा नरिदेश' दयि ।
  - इन दशा नरिदेशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, नषिध और नवारण) अधिनियम, 2013 ("यौन उत्पीड़न अधिनियम") का आधार बनाया ।
- **तंत्र:** अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परषिषति करता है और शकियतों के नवारण के लयि एक तंत्र बनाता है ।

- प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है।
- शिकायत समितियों को साक्ष्य एकत्र करने के लिये दीवानी न्यायालयों की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
- शिकायत समितियों को शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर जाँच शुरू करने से पहले सुलह का प्रावधान करना होता है।
- **दंडात्मक प्रावधान:** नियोक्ताओं के लिये दंड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माना देना होगा।
  - बार-बार उल्लंघन करने पर अधिक दंड और व्यवसाय संचालित करने के लिये लाइसेंस या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
- **प्रशासन की ज़िम्मेदारी:** राज्य सरकार हर ज़िले में जिला अधिकारी को अधिसूचित करेगी, जो एक स्थानीय शिकायत समिति (Local Complaints Committee- LCC) का गठन करेगा ताकि असंगठित क्षेत्र या छोटे प्रतिष्ठानों में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

## नोट: SHe-Box

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (Sexual Harassment electronic-Box - SHe-Box) लॉन्च किया है।**
- यह यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत के पंजीकरण की सुविधा हेतु संगठित या असंगठित, नज़ी या सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रही हर महिला को पहुँच प्रदान करने का प्रयास है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
- एक बार शिकायत 'SHe-Box', में दर्ज हो जाने के बाद सीधे संबंधित प्राधिकारी को मामले में कार्रवाई करने हेतु अधिकार क्षेत्र में भेजा जाएगा।

## आगे की राह

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम पर **जे.एस. वर्मा समिति (J.S. Verma Committee)** की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता है:
  - **रोज़गार न्यायाधिकरण:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के बजाय एक रोज़गार न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।
  - **स्वयं की प्रक्रिया बनाने की शक्ति:** शिकायतों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिये समिति ने प्रस्ताव दिया कि न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिकायत से निपटने हेतु उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया का चयन करने की शक्ति दी जानी चाहिये।
  - **अधिनियम के दायरे का विस्तार:** घरेलू कामगारों को अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाना चाहिये।
    - समिति ने कहा कि किसी भी तरह के 'अवांछनीय व्यवहार' को शिकायतकर्ता की व्यक्तिपरक धारणा से देखा जाना चाहिये, जिससे यौन उत्पीड़न की परिभाषा का दायरा व्यापक हो सके।
  - **नियोक्ता का दायित्व:** वर्मा समिति ने कहा कि एक नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये यदि:
    - उसने यौन उत्पीड़न में उत्पीड़क की सहायता की हो।
    - एक ऐसे वातावरण के निर्माण में मदद की हो, जहाँ यौन दुराचार व्यापक एवं व्यवस्थित हो।
    - जहाँ नियोक्ता यौन उत्पीड़न पर कंपनी की नीति और कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के तरीकों का खुलासा करने में वफिल रहता है।
    - जब नियोक्ता ट्रेबियूनल को शिकायत अग्रपेक्षित करने में वफिल रहता है।
    - कंपनी शिकायतकर्ता को मुआवज़े का भुगतान करने हेतु भी उत्तरदायी होगी।
    - समिति ने झूठी शिकायतों के लिये महिलाओं को दंडित करने का वरिध किये, क्योंकि यह संभावित रूप से कानून के उद्देश्य को समाप्त कर सकता है।
    - वर्मा समिति ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिये तीन महीने की समय-सीमा समाप्त की जानी चाहिये और शिकायतकर्ता को उसकी सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिये।

## स्रोत: द हट्टू